

7. Write short note on any two :

(a) SIP

(b) PPF

(c) Financial derivatives

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(क) एसआईपी

(ख) पीपीएफ

(ग) वित्तीय डेरिवेटिव

(3000)

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5770

H

Unique Paper Code : 2414002006

Name of the Paper : Personal Financial Planning

Name of the Course : Common Group Paper

Semester : IV

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt any 6 questions.
3. Part of question to be attempted together.
4. All questions carry equal marks.
5. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

P.T.O.

2. कोई 6 प्रश्न कीजिए।
3. प्रश्न के भागों को एक साथ कीजिए।
4. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Define financial planning. What are the steps to be followed in the financial planning process?

वित्तीय नियोजन को परिभाषित कीजिए। वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में किन चरणों का पालन किया जाना चाहिए?

2. What do you understand by Risk profiling? and how to create a risk profile?

जोखिम प्रोफाइलिंग से आप क्या समझते हैं? और जोखिम प्रोफाइल कैसे बनाए जाते हैं?

3. Mr. X has financed his house by taking a loan of Rs. 71,00,000 @ 10% p.a. He has paid a down payment of Rs. 19,00,000. The loan is to be repaid in 10 equal annual instalments starting from the end of the first year. Calculate the amount of equal annual instalment and the total interest to be paid.

मिस्टर एक्स ने 10% प्रति वर्ष की दर से 71, 00,000 रुपये का ऋण लेकर अपने घर को फाइनेंस करवाया है। उन्होंने 19,00,000 रुपये की डाउन पेमेंट का भुगतान किया है। ऋण को पहले वर्ष के अंत से शुरू करके 10 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। समान वार्षिक किस्त की राशि और भुगतान किए जाने वाले कुल ब्याज की गणना कीजिए।

4. What do you understand by investors' protection? Give SEBI guidelines in this respect.

निवेशकों की सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? इस संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों पर चर्चा कीजिए।

5. What do you understand by dematerialization and state its benefits to investors?

डिमटेरियलाइजेशन से आप क्या समझते हैं और निवेशकों को इसके लाभ बताएं?

6. Does diversification reduce the risk of investment? Explain with an example.

क्या विविधीकरण से निवेश का जोखिम कम हो जाता है? उदाहरण सहित समझाइये।